



K.M. Sugar Mills Ltd.

Factory & Works : P.O. Motinagar-224201, Dist. Ayodhya (U. P.)
Phone : 7571000692, Email : director@kmsugar.com
CIN No.:L15421UP1971PLC003492 GSTIN No.:09AAACK5545P1ZZ

Date: 06th February, 2021

Bombay Stock Exchange Limited, 25 th Floor, Phiroz Jejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 Phone no. 022-22728527	National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 Phone no. 022-26598100
--	--

Dear Sirs,

Ref:- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Notice of the Board Meeting in respect of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and the Nine Months ended 31st December, 2020

We submit herewith copies of the advertisements published in Financial Express and Rashriya Sahara on 05th February, 2021 in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your information and records.

Thanking you.

Your's faithfully,

For K M Sugar Mills Limited,


Pooja Dua
(Company Secretary)

FOR 2ND DAY, RS DEBATES FARMER PROTESTS

Learn from Punjab past, don't punish farmers, says Oppn

End hypocrisy on farm laws, says govt

RITIKA CHOPRA & SHUBHAJIT ROY
New Delhi, February 4

BATTLELINES DRAWN, THE Opposition, for the second day in Rajya Sabha, slammed the government Thursday for its handling of the farmer protests, with members warning that no lessons were being learnt from Punjab's troubled past, that the Centre was failing federalism, and that the protesting farmers should not be punished for the Republic Day violence in Delhi by some "anti-social elements".

The ruling BJP hit back, especially targeting the Congress for its "hypocrisy" on agricultural reforms and questioning the party why it never felt the need for a law on MSP—one of the key demands of the protesting farmers—when it was in power for decades.

Alluding to the days of militancy in Punjab, RJD member Manoj Jha said the government should learn from history and mistakes made in the past, and look at the problems of farmers more empathetically.

"We have all seen how Punjab has suffered in the past. We didn't just lose a Prime Minister, we lost many lives... But we don't want to learn... We are calling them (protesting farmers) Pakistani, Khalistani, Naxal and anti-national," he said.

Swapna Dasgupta, a nominated member, urged his colleagues to not look at the country in terms of what the most successful have done, but to also look at places where there has been least success.

He pointed out that farmers in Haryana and Punjab are more prosperous than their counterparts in east India. "This is not to berate them. This is only to admire their hard work and integrity and their adoption of technology... unfortunately, this does not prevail in the whole country," he said. The farmers in West Bengal, Dasgupta said, are marginalised and depend on subsidised farming, and it is this section of the farming community that the new farm laws aim to help.

BJP's Jyotiraditya Scindia criticised the Opposition, mainly his former party Congress, for its "hypocrisy" on agricultural reforms. He drew the attention of the House to the Congress election manifesto for the 2019 Lok Sabha election

that promised to repeal the APMC Act and make trade in agricultural produce "free from all restrictions".

He recalled NCP leader Sharad Pawar's letter to all Chief Ministers about a decade ago in which he advocated private sector participation to promote "well-functioning markets" for agricultural produce. "Yeh zubaan badalne ki aadat bandh karni padegi (you have to drop this habit of speaking in different voices)," he said.

Scindia's former party colleague and Congress member Digvijaya Singh, responding to the charge of hypocrisy, said: "You spoke of the Congress manifesto... Where does it say that there should be no consensus on introducing farm reforms or laws? We had asked for the Bills to be sent to a Select Committee. I was in my seat in this House when I asked for division (of votes), but there was no division" -- he was referring to the passage of two key Bills via voice vote amidst ruckus in the Upper House on September 20 last year.

Former Prime Minister and JD(S) member H D Deve Gowda struck a more conciliatory tone. While he acknowledged that the government had worked for the benefit of farmers over the last seven years, he said they would be mistaken to think that the three farm Bills would help farmers avoid middlemen.

He condemned the violence that took place on January 26, but also said that it was provoked by a few "anti-social elements" and that the protesting farmers should not be punished for it. TMC member Derek O'Brien said the NDA-III government had failed the country on many counts. Referring to September 20, 2020, the government, he said, failed to uphold the sanctity of the Parliament because of its "arrogance". He said the protest registered by the Opposition inside and outside the House was "just a drop in the ocean" and that farmers have now taken over and made this their movement.

O'Brien also alleged failure on part of the government on the Covid preparation front. He said the Union government initially tried to "bulldoze" its way through in March, only to later realise that states are also stakeholders and the final implementing agency.

US backs farm reforms; India cites similarity in Red Fort, Capitol Hill

SHUBHAJIT ROY
New Delhi, February 4

WITH THE BREAKDOWN of talks in New Delhi between farmer unions and the Centre deepening the crisis over opposition to the new agriculture laws, the Biden administration Thursday said it "encouraged" differences between the parties to be resolved "through dialogue".

At the same time, it said that the US "welcomed steps that would improve the efficiency of India's markets and attract greater private sector investment." This was a reference to the three farm laws at the centre of the protest. On Internet restrictions at the protest sites along the Delhi border, the US administration said it recognises that "unhindered access to information, including the Internet, is fundamental to the freedom of expression and a hallmark of a thriving democracy."

Responding to these remarks, the Ministry of External Affairs said it has taken "note" of the comments by the US State Department. Stressing that India and the United States are both "vibrant democracies with shared values", Anurag Srivastava, spokesperson for the Ministry of External Affairs, said: "The incidents of violence and vandalism at the historic Red Fort on 26 January have evoked similar sentiments and reactions in India as did the incidents on the Capitol Hill on 6 January and are being addressed as per our respective local laws."

Responding to questions at a briefing, Srivastava said: "It is important to see such comments in the context in which they were made and in their entirety. As you can see, the US state department has acknowledged steps being taken by India towards agricultural reforms."

"Any protests must be seen in the context of India's democratic ethos and polity, and the ongoing efforts of the Government and the concerned farmer groups to resolve the impasse."

"The temporary measures with regard to Internet access in certain parts of the NCR region were therefore understandably undertaken to prevent further violence," the MEA spokesperson said. Earlier in the day, the comments from the Biden administration were first made in Washington DC by the US State

Department, in response to questions by the Wall Street Journal, and was later reiterated by the US embassy spokesperson in New Delhi. "We recognize that peaceful protests are a hallmark of any thriving democracy, and note that the Indian Supreme Court has stated the same. We encourage that any differences between the parties be resolved through dialogue. In general, the US welcomes steps that would improve the efficiency of India's markets and attract greater private sector investment," the US embassy spokesperson said.


SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION


HORTICULTURE DEPARTMENT(HQ)
 E Block, 3rd Floor, Dr. S.P. M. Civic Centre,
 J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002

NOTICE INVITING TENDER

Online Item Rate Open Tenders are invited under two bid system (Technical & Financial) from experienced and financially sound eligible Contractors/Firms as per Tender No. 319554 issued vide No. DDH/HQ/SDMC/2020-21/2875/NIT No. 5 Dated 02.02.2021 for the execution of the work of "Providing and Fixing RCC benches without back rest in Gazebo at different SDMC parks in West Delhi Parliamentary Constituency" Est. Amt. Rs. 21.25 Lac EMD Rs. 42500/-, Tender Cost Rs. 1000/- Compl. Time 6 months. Head of a/c XL-VIII-V. Bidding Documents with detailed terms & conditions can be downloaded from the website <http://mcdtenders.com> OR visit SDMC website www.mcdonline.gov.in/South_Delhi_Municipal_Corporation/Tenders/e-tendering. For Online tender the helpdesk Nos. are 011-23227413 & 011-23227414 or mail to : mcd-ithelpdesk@mcd.gov.in Download, Bid Preparation and Hash Submission is w.e.f. 05.02.2021 from 10.01 AM to 17.02.2021 up to 3.00 PM. Re-encryption of Online Bid 17.02.2021 from 5.01 PM to 18.02.2021 up to 3.00 PM. Opening of Technical Bids 18.02.2021 at 3.30 PM. All detail of Revisions, Clarifications, Corrigendum, Addendum, Time Extension etc., if any, in respect of above tenders(s) will be uploaded on SDMC website only and will not be published in newspaper(s) separately. Bidders should regularly visit the website to keep themselves regularly updated in respect of these tenders.

DY. DIRECTOR (HORT.) HQ
Phone: 011-23225334

RO No.67/DP/VS/20-21


BANK OF BARODA
BRANCH OFFICE : Atlas Road, Sonipat-131001

POSSESSION NOTICE (for Immovable property/ies)
(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002).

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the BANK OF BARODA under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated on the dates mentioned against account and stated herein after calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and Guarantor and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on the dates mentioned against account.

The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount and interest thereon given below mentioned account.

The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower/ Guarantor	Description of property mortgagor	Date of demand notice	Date of possession	Amount O/s
1 Mr. Parveen Kumar S/o Ruliya Ram & 2 Mr. Ruliya Ram S/o Manji Ram, Both are Residing at H.No.-B-491, Jamal Pura, Sonapat Haryana 131001	All that piece and parcel of Residential Property situated at Urban Shop No-11/89, Measuring 18 sq. yard, With dimension 12ft* 14ft* situated in the area of Jamal Pura Sonapat. Haryana 131001 boundaries : East :- House of Ruliya Ram, West-Shop Of Budh Ram, North :- Road, South :- House of Ruliya Ram	03.08.2021	30.01.2021	Rs. 4,55,429.87/- (Rupees Four Lacs Fifty Five Thousand Four Hundred Twenty Nine & paise Eighty Seven Only) Plus further interest and cost.

Dated: 04.01.2021 Place: Sonipat Authorized Officer, Bank of Baroda

P G INDUSTRY LIMITED
A-30, S-11, SECOND FLOOR, KAILASH COLONY, NEW DELHI - 110048
CIN : L74899DL1993PLC056421

Website : www.pgil.com

E mail : pgindustry ltd@gmail.com

Extract of Un - audited Financial Results For the Quarter ended on 31st December 2020					
(₹ IN LAC)					
S. NO.	PARTICULARS	Quarter ending on 31-12-2020	Quarter ending on 30-09-2020	Quarter ending on 31-12-2019	Period ending on 31-12-2020
	(Refer Notes Below)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations (Net)	1,057.77	594.22	1,501.52	1,944.70
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(68.59)	(228.33)	25.17	(375.21)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(68.59)	(228.33)	25.17	(375.21)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(68.59)	(228.33)	18.80	(375.21)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	(68.59)	(228.33)	18.80	(375.21)
6.	Equity Share Capital	597.37	597.37	597.37	597.37
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	2,228.77
8.	Earning Per Share (For continuing and discontinued operations and before extraordinary items) (of ₹ 5/- each)	(0.57)	(1.91)	0.16	(3.14)
	Basic:	(0.57)	(1.91)	0.16	(3.14)
	Diluted:	(0.57)	(1.91)	0.16	(3.14)
9.	Earnings Per Share (For continuing and discontinued operations and after extraordinary items) (of ₹ 5/- each)	(0.57)	(1.91)	0.16	(3.14)
	Basic:	(0.57)	(1.91)	0.16	(3.14)
	Diluted:	(0.57)	(1.91)	0.16	(3.14)

Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 04th February, 2021 in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The Statutory Auditors have carried out limited review of the Accounts for the Quarter ended on 31st December, 2020.
- Figures of the previous corresponding period(s) have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Result is available on the Website of Stock Exchange (www.bseindia.com).
- In accordance with "Green Initiative in Corporate Governance" by the Ministry of Corporate Affairs, Company will be sending future communications through electronic mode. All those members who have not got their email ID recorded or updated with the company or with the depository are requested to register their e-mail address and changes therein with Company/depository as the case may be.

For P G Industry Ltd.
 Sd/-
SAKET DALMIA
 Managing Director (DIN: 00083636)

Date : 04th February 2021
 Place : New Delhi


THE NAINITAL BANK LTD.

E-AUCTION NOTICE

Branch : Pilkoth, Near Kapil Dharamshala, Kaladunghi Road, Haldwani, District-Nainital-263139, Uttarakhand Phone No.: 05946-263008

SALE OF ASSETS THROUGH ONLINE E-AUCTION UNDER SARFAESI ACT 2002

E-auction Sale Notice for Sale of Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8 (6) & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

WHEREAS, the undersigned being the Authorized officer of The Nainital Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 09.12.2016 calling upon the borrowers M/s Himalayan Traders and guarantors namely 1. Mr. Bhuvan Chandra Kandpal S/o Shri Bishan Datt Kandpal, 2. Mr. Rajendra S/o Shri Ramji Prasad, 3. Mrs. Parwati Devi W/o Shri Himalay Datt to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 27,85,832.72 (Rupees Twenty Seven Lakh Eighty Five Thousand Eight Hundred Thirty Two And Seventy Two Paise Only) plus interest and other expenses with effect from 09.12.2016 within 60 days from the date of receipt of the said notice. WHEREAS the Borrowers having failed to repay the amount/dues in full to the Bank as called for in the said Demand Notice, the Bank has taken physical possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 & 9 of the said Rules on 09.03.2017. With the right to sell the same for realization of Bank's dues. The undersigned in exercise of powers conferred under Section 13(4) proposes to realize the Bank's dues by sale of undermentioned property(ies). ACCORDINGLY, the Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the constructive/physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of The Nainital Bank Limited the Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and "No recourse" basis through E- Auction for recovery of amount mentioned in the table below along with further interest, cost and expenses being due to The Nainital Bank Limited viz. Secured Creditor. It is hereby informed you that we are going to conduct public E-Auction through website <https://sarfaesi.auctiontiger.net>

Name and Address of Borrower(s)/ Guarantor(s)	Description of Property	Date of Notice U/s 13(2), Date of Possession Notice U/s 13 (4) & Total dues less recovery if any.	Reserve Price EMD Bid Increase Amount	Status of Possession	Account No. to Deposit EMD/BID amount	EMD submission date and time & E-Auction date and Time	Property Inspection Date & Time
1. Himalayan Traders Prop. Ramesh Chandra Upreti S/o Chandra Ballabh Upreti, R/o- 350-B Phase III Amrawati Colony Mallibamori, Haldwani-263139 District Nainital Uttarakhand. (Borrower).	Equitable Mortgage of Land and building at Khata No. 00899 and Khasra no. 655 min/area measuring 310.77 Sq. Ft. or 28.88 Sq Mt.) situated at Revenue Village Bithoria NO. 1 Tehsil-Haldwani, District-Nainital, Uttarakhand registered in the name of Bhuvan Chandra Kandpal S/o Late Shri Bishan Datt Kandpal and Mrs. Parwati Devi W/o Late Shri Bishan Datt Kandpal and registered with sub registrar Haldwani in Book No. 1, Volume No. 490 on pages 18 to 19 and at serial No. 797 on dated 09.03.1983. Bounded By : East- 15 Ft. wide Road, West – Owner's Property, North – Owner's Property, South – Others House.	09.12.2016 09.03.2017	₹ 13.50 Lakh (Rs. Thirteen Lakh Fifty Thousand Only)	Physical	Account Number: 050 9002 IFSC CODE: NTBLOHAL050 Or through Demand Draft in favor of The Nainital Bank Ltd. to be deposited with Bank's Kaladunghi Road Branch, Haldwani	Last Date of EMD Submission 23.02.2021 up to 4.00 PM E-Auction on 24.02.2021 from 11:00 AM to 1:00 PM (with unlimited extension of 5 min each)	22.02.2021 10.00 AM to 03.00 PM
2. Ramesh Chandra Upreti S/o Chandra Ballabh Upreti, R/o- 350-B Phase III Amrawati Colony Mallibamori, Haldwani-263139 District Nainital Uttarakhand. (Borrower).		₹ 15,77,832.72 (Rupees Fifteen Lakh Seventy Seven Thousand Eight Hundred Thirty Two & Paise Seventy Two only) plus interest and other expenses	₹ 1.35 Lakh (Rs. One Lakh Thirty Five Thousand Only)				
3. Bhuvan Chandra Kandpal S/o Bishan Datt Kandpal, R/o Gair Vaishali, Bithoria No. 1, Haldwani-263139 District Nainital Uttarakhand. (Guarantor)			₹ 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only)				
4. Rajendra S/o Ramji Prasad, R/o H. No. 34, Guru Nanakpura, Haldwani-263139 District Nainital Uttarakhand. (Guarantor)							
5. Parwati Devi W/o Bishan Datt, R/o- Gair Vaishali, Bithoria No. 1, Haldwani-263139 District Nainital Uttarakhand. (Guarantor)							

All interested participants / bidders are requested to visit the website <https://sarfaesi.auctiontiger.net> & www.nainitalbank.co.in (Banksite) for further details including Terms & Conditions, to take part in e-auction sale proceeding and are also advised to contact Bank's Service Provider e-Procurement Technologies Ltd. Mr. Chintan Bhatt, Contact Number 9978591888 and e-mail of chintan.bhatt@auctiontiger.net.

THIS IS A STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE TO BORROWER/GUARANTOR/ MORTGAGOR UNDER SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Place : Haldwani (Nainital) Date : 05.02.2021

Authorized Officer, The Nainital Bank Limited

Boeing enters into strategic pact with Air Works

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, February 4

US AEROSPACE MAJOR Boeing on Thursday said it has entered into a strategic collaboration with Air Works Group for the maintenance, repair and overhaul of its Poseidon 81 maritime reconnaissance aircraft and the VIP transport fleet which are being operated by the Indian Navy and the IAF respectively. Surendra Ahuja, the managing director of Boeing Defence India, said the agreement with Air Works positioned the company to generate significant value for its defence customers in India.

Will remove misinformation around Covid, says Facebook

SOCIAL MEDIA GIANT Facebook on Thursday said it is focused on removing misinformation around Covid-19, including false claims related to vaccines, as part of its efforts to ensure user safety protection.

Facebook product policy manager for misinformation Alice Budisatrijo said while it isn't appropriate for a firm to decide whether the information is true or false, it is essential that people have access to credible information. "We don't believe that it's appropriate for a US technology company, or anyone to determine what is true and what is false. So, whether it's private firms, governments, if any single actor gets to decide what's true and false, this creates potential overreach and unhealthy power imbalance," she said during a virtual briefing.—PTI


Bank of India

TENDER NOTICE

Bank of India, Lucknow Zone invite sealed tender from any empanelled Contractor for BANK OF INDIA in connection with composite tender such as interior civil electrical and air conditioning work. Interested parties can download the tender documents from Bank's website www.bankofindia.co.in on 02.02.2021 to 10.02.2021. Filled in tender form for Vigilance Dept./ up Audit office & Association & Union office each tender money is Rs 1000/- should be submitted, on or before 3:00 p.m. And for Service branch & Zood the tender money is Rs. 2000/- to be paid through DD/Pay order by 11.02.2021. Tender money without DD/Pay order will be rejected. Bank reserves the right to accept or reject without assigning any reason thereof.

Date: 05.02.2021, Place: Lucknow Zonal Manager

K M SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: 11-Moti Bhawan, Collector Ganj, Kanpur-208001 (U.P.)
 Corp. Office: 76-Eldeco Green, Gomti Nagar, Lucknow-2260101 (U.P.)
 CIN No. : L15421UP1971PLC003492, Website : www.kmsugar.com
 E-mail : kmsugar@gmail.com Phone : 0512-2310762, 0522-4079561

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29, 33 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, the 11th day of February, 2021 at 11.00 hrs (A.M.)** to consider and approve the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and the Nine months ended 31st December, 2020 *inter-alia* any other matter.

Further, pursuant to clause 4 of schedule B of code of conduct SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 Trading Window has been closed for the Directors, Promoters, Officers and designated employees of the Company from 01st January, 2021 till 48 hours after the declaration of the financial Results of the Company for the Quarter and the Nine Months ended 31st December 2020 i.e. 13th February, 2021 for dealing in the securities of the Company.

The said notice may be assessed on the Company's website at www.kmsugar.com and also on Stock Exchanges Website at www.bse.india.com and www.nseindia.com including Un-audited quarter and Nine Months ended financial results after approval by the Board.

By order of the Board
 For K M Sugar Mills Ltd.
 Sd/-
 Pooja Dua
 Company Secretary

Place: Lucknow
 Dated: 04th February 2021


Careers

Advertisement No. – 12/2021

Government of India
 Public Enterprises Selection Board
 invites applications for the post of
Director (Shipbuilding)
 in
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
 Last date of receipt of applications in PESB is
by 15.00 hours on 8th April, 2021
 For details login to website <http://www.pesb.gov.in>